Goodyear India Limited

Corporate Office:

Ist Floor, ABW Elegance Tower Plot No. 8, Commercial Centre Jasola, New Delhi - 110 025

Telephone +91 11 47472727 Telefax

+91 11 47472715 email

gyi_info@goodyear.com

website www.goodyear.co.in



November 15, 2022

To
The Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroz Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Scrip Code: 500168 ISIN: INE533A01012

Sub: Intimation of publication of Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copy of Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022, approved by the Board of Directors at its meeting held on Monday, November 14, 2022 and published in the following newspapers:

- The Financial Express (National English language daily newspaper) on November 15, 2022;
- Jansatta (Regional language daily newspaper) on November 15, 2022.

We request you to take the above information on record.

Thanking You.

Yours sincerely, For Goodyear India Limited

Anup Karnwal

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: as above



Divisional Office, No.6, 3rd Floor, Opp: Metro Pillar No: 80,

Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi- 110005

Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

SBEC SUGAR LIMITED CIN: L15421UP1991PLC019160

Tel.: 01234-259206 Fax:+91-1234-259200

Regd. Off.: Village Loyan Malakpur, Thesil Baraut, District: Baghpat, Uttar Pradesh-250611

Ph: 011-28758374 / 2875375/76/77 Email: kvbl4121@kvbmail.com E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provisonto Rule 8 (6) of the

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor (s) that the below described immovable properties mortgaged/ charged to the Secured Creditor, The Karur Vysya Bank Ltd, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of The Karur Vysya Bank Ltd., Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on December 20, 2022 for recovery of Rs.72,79,37,331.02 (Rupees Seventy Two Crore Seventy Nine Lakh Thirty Seven Thousand Three Hundred Thirty One and paise Two Only) as on 31/10/2022 along with future interest and expenses thereon due to the Karur Vysya Bank Ltd, Secured Creditor from 1) M/s Giriraj Timber Private Limited 73/12, Swarn Park, Main Rohtak Road, Mundka, New Delhi-110041 2) Mr.Sumit Goyal S/o- Mr. Chand Kumar Goyal 450, First Floor, Deepali, Pitampura, Delhi-110034 3) Mr. Chand Kumar Goyal S/o- Prem Sagar Goyal 450, First Floor Deepali, Pitampura, Delhi-110034 4) Mrs.Suman Goyal W/o- Mr. Anil Goyal 450 First Floor, Deepali, Pitampura, Delhi-110034 5) Mrs. VeenaGoyal W/o- Mr. Chand Kumar 450, First Floor, Deepali, Pitampura, Delhi-110034 6) Mr.Shanta Goyal

RESERVEPRICE: The reserve price will be Rs.6,30,00,000/- (Rupees Six Crore Thirty Lakh only) and the earnest money deposit will be Rs.63,00,000/-(Rupees Sixty Three Lakh only)

W/o-Mr. Pradeep Goyal House No: 282, Sector-10, Panchkula, Haryana-134109

Details as per Mortgage Documents: Commercial godown on plot of Khasra no. 73/10/2(0-01);73/10/3(0-12);73/11/2

(0-10), Village Mundka, Delhi admeasuring an area about 1050 sq yards standing in the name of Mrs. Shanta Goyal W/o-Mr. Pradeep Goyal and bounded as under: North: Others property South: Main Rohtak Road & Metro Station

East: Others Plot West: Storage Godown of Mrs. R.K Mehta Details as per site as on date:

Place : Delhi

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES

Commercial godown on plot of Khasra no. 73/10/2(0-01):73/10/3(0-12): 73/11/2(0-10), in the Revenue Estate of Village Mundka,(Adjacent to Rajdhani metro station), Swarn park, Mundka, Delhi-110041, admeasuring an area about 1050 sq yards together with shed of 4511.95 sqft, standing in the name of Mrs.Shanta Goyal W/o-Mr. Pradeep Goyal and bounded as under: South: Main Rohtak Road & Metro Station North: Others property East: Others Property West: Others Property

For the detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provide d in The Karur Vysya Bank Ltd's website i.e www.kvb.co.in/Property Under Auction also at the web portal https://www.eauction.samil.in of the service provider, M/s. Shriram Automall India Ltd.

Statutory 15 days' Notice under Rule 9(1) read with Rule 8(6) of the SARFAESI Act, 2002 **

The Borrower and guarantor/s are hereby notified to pay the dues as mentioned above along with up to date interest and ancillary expenses within 15 days of receipt of this notice, failing which the Schedule property will be auctioned/sold and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost. Date: 15/11/2022 **Authorized Officer**

The KarurVysya Bank Ltd.

E-mail: investors@sbecsugar.com, Website: www.sbecsugar.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022

- 8			STANDALON	- 8	CONSOLIDATED					
Sr. No.	Particulars	ended 30th September, 2022 Unaudited	ended 30th September, 2022 Unaudited	2021 Unaudited	ended 30th September, 2022 Unaudited	Six Months ended 30th September, 2022 Unaudited	3 Months ended 30th September 2021 Unaudited			
1	Total Income from Operations (Net)	12,099.76	28,775.35	14,719.98	13,059.27	29,956.88	14,719.9			
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or	(2,307.10)	(1,746.13)	(23.54)	(1,721.72)	(1,244.88)	(363.92			
4	Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or	(2,307.10)	(1,746.13)	(23.54)	(1,721.72)	(1,244.88)	(363.92			
5	Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other	(2,307.10)	(1,746.13)	(23.54)	(1,954.90)	(1,478.06)	(363.95			
6	Comprehensive Income(after tax)] Equity Share Capital Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year	(2,325.84) 4,765.39		(23.32) 4,765.39	(1,971.38) 4,765.39	(1,511.01) 4,765.39	,			
8	Earnings Per Share (EPS) (for continuing and discontinued operations)	(4.04)	(2.60)	(0.05)	(2.40)	(2.40)	(0.7)			
	a Basic b Diluted	(4.84) (4.84)	(3.66) (3.66)	(0.05) (0.05)	(3.10)	(3.10) (3.10)	,			

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financia Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on Company's website a www.sbecsugar.com
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at their meetings held on 14th November .2022
- The Financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rule (A amednded).

By order of the Board For SBEC Sugar Limited

Umesh Kumar Mod Chairman & President DIN: 00002757

GOOD YEAR

Date: 14th November, 2022

Place: New Delhi

GOODYEAR INDIA LIMITED

CIN: L25111HR1961PLC008578

'Registered office: Mathura Road, Ballabgarh (Dist. Faridabad) - 121004, Haryana 'Telephone: 0129-6611000 Fax: 0129-2305310, E-mail: gyi_info@goodyear.com, Website: www.goodyear.co.in

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022 (Rs. In Lakhs)

Particula	Current 3 months ended (30/09/2022)	Preceding 3 months ended (30/06/2022)	Corresponding 3 months ended (30/09/2021)		Year to date figures for Corresponding period ended (6 Months) (30/09/2021)	Year to date figures for Current year ended (12 Months) (31/03/2022)
-5-1-1-20 PM	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations	77,155	82,314	70,464	1,59,469	1,24,430	2,45,889

1	Total income from operations	77,155	82,314	70,464	1,59,469	1,24,430	2,45,889	
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	3,622	5,044	5,252	8,666	8,851	13,845	
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	3,622	5,044	5,252	8,666	8,851	13,845	
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,710	3,774	3,916	6,484	6,605	10,289	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (loss) (after tax)]	2,645	3,860	3,867	6,505	6,474	10,131	
6	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs.10/- per share)	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307	
7	Reserve excluding revaluation reserve							

as shown in the audited balance sheet of the previous year. 8 Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing

and discontinued operations) (not annualised):

a) Basic (Rs.)

www.bseindia.com and also available on the Company's website i.e www.goodyear.co.in/investor-relations

11.75 16.36 16.98 28.11 44.61 28.63 b) Diluted (Rs.) 11.75 16.36 16.98 28.11 28.63 44.61

Notes: 1 The above is an extract of the detailed format of the Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the

("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India. 3 The Company is engaged in the business of sales of automotive tyres, tubes and flaps. The Company sells tyres of its own brand "Goodyear". The Chief Operating Decision Maker (CODM), Managing Director, performs a detailed review of the operating results, thereby makes decisions about the allocation of resources among the various functions. The operating results of each of the functions are not

2 The unaudited standalone financial results has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting"

SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the Standalone Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website at

considered individually by the CODM, the functions do not meet the requirements of Ind AS 108 for classification as an operating segment, hence there is only one operating segment namely. "Automotive 4 The Code on Social Security, 2020 ("Code") relating to employee benefits during employment and post-employment benefits received Presidential assent in September 2020. The Code has been published

in the Gazette of India. However, the date on which the Code will come into effect has not been notified. The Company will assess the impact of the Code when it comes into effect and will record any related impact in the period the Code becomes effective.

5 This Statement has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on November 14, 2022. The financials results for the guarter and half year ended September 30, 2022 have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company and they have expressed an unmodified conclusion thereon.

> For GOODYEAR INDIA LIMITED Sandeep Mahajan

81,650

Place: New Delhi Date: November 14, 2022

Chairman & Managing Director

DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED CIN: L/4899DL1989PLC035140

Kanchenjunga Building, 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001 Tel.: 011-43745000, E-mail: dsil@dcmsr.com, Website: www.dcmsr.com

		Standalone						Consolidated					
SI.	PARTICULARS		Quarter ende	d	Six mont	hs ended	Year ended	C	uarter endec		Six months ended		Year ended
No.		30.09.2022 (Unaudited)	30.06.2022 (Unaudited)			30.09.2021 (Unaudited)			30.06.2022 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)		31.03.2022 (Audited)
1.	Total Income from Operations	53,562	71,142	49,261	1,24,704	95,876	2,14,588	53,579	71,156	49,275	1,24,735	95,904	2,14,646
2.	Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	95	2,464	1,706	2,559	3,642	9,201	97	2,483	1,745	2,580	3,710	9,275
)	Net Profit/(loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	95	2,464	1,706	2,559	3,642	9,201	97	2,483	1,745	2,580	3,710	9,275
	Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	93	1,623	1,234	1,716	2,532	6,573	93	1,637	1,264	1,730	2,584	6,624
	Total Comprehensive Income (comprising net Profit/(loss) & Other Comprehensive Income/(loss) after tax)	138	1,669	1.277	1.807	2,619	6.755	138	1,682	1,308	1,820	2.676	6,809
	Equity Share Capital	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740
7.	Other Equity Basic and diluted earnings per share	1,140	1,740	1,740	1,740	1,740	63,698	1,740	1,740	1,740	1,140	1,140	65,452

 In accordance with the accounting policy consistently followed by the Company, off-season expenditure aggregating ₹ 4,351 Lakhs (corresponding previous half year ₹ 3,360 Lakhs) has been deferred for inclusion in the cost of sugar to be produced in the remainder of the year. This Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, as amended, and other recognized

2.91

7.56

1.88

0.11

accounting practices and policies to the extent applicable. Consequent to sub-division of the face value of the equity shares in the Company from ₹ 10 per share to 5 equity shares of ₹ 2 per share and commencement of trading in the sub-divided shares on 8 October 2021, earnings per

share have been computed/restated for all the periods presented.

Consequent to Gazette Notification dated 3 August 2022 by Govt. of Uttar Pradesh in the matter of revision of wages from 01.10.2018, a provision of ₹ 1,011 lakhs has been made in the quarter out of which ₹ 896 lakhs pertains to

1.97

1.42

Proceedings in a petition challenging the preferential issue of equity warrants by the Company, filed by a shareholder before the Hon'ble Company Law Board (now National Company Law Tribunal), are continuing since

The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors in its meeting held on 14 November 2022. The above financial results are available on the Company's website www.dcmsr.com and also on www.bseindia.com & www.nseindia.com. For and on behalf of the Board

Place: New Delhi Dated: 14 November 2022

(₹) (Not annualised)

O DCM SHRIRAM

1.99

1.45

TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

Place:- Gurgaon.

Date:- 14-11-2022

Shubham Corporate Office : 425, Udyog Vihar Phase IV, Gurgaon-122015 (Haryana) Ph. : 0124-4212530/31/32, E-Mail: customercare@shubham.co website : www.shubham.co

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTIES) Whereas the undersigned being the authorized officer of the Shubham Housing Development Finance Company Limited (hereinafter called Shubham) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section

13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice calling upon

borrowers to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described hereinbelow in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the SecurityInterest Enforcement) Rules, 2002. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing

with the property will be subject to the charge of Shubham Housing Development Finance Company Limited for an amount detailed below and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. Details are as below

S. No.	Loan No/Borrower(s), Co-Borrower	Demand Notice Amount	Date of Demand Notice	Secured Asset	Date of Affixation
1.	0CTR191000005023621, Pooja Saroha, Jagminder, Deepak Kadian	a Saroha, Jagminder, 18,63,031/-		Flat No. 202, Second Floor (Left Hand Flat When Facing Lift), M.M. Residency, Plot No. 07, Khewat/Khata No. 1907/2723, Khasra No. 3624/1246, (1-13-0) New Colony, Adjoining Lady Fatima School, Near Nehru Lane, Village- Gurugram, District Gurugram, Haryana, 122001	11-11-2022
2.	0KHI1608000005001732, Prabhat Kumar Choudhary, Soni Kumari	Rs. 20,19,958/-	20-08-2022	P.No. 100 &101, Third Floor, Kh No. 51/10, 51/11 Gali No 8, West Guru Angad Nagar Harminder Colony, Patparganj Road, Village Khureji Khas, Illaq Shahdra East Delhi -110092	11-11-2022
3,	0DEL2107000005037813, Sandeep Anand, Chahat Anand	Rs. 23,77,712/-	20-08-2022	Property No. 351, Khasra No. 52/32/4, Lal Dora Abadi of Village Rampura Delhi, North West Delhi 110035	11-11-2022
4.	ONHP2009000005029737, Ravi Goswami, Rubi Goswami	Rs. 6,97,772/-	20-08-2022	Third Floor (without Roof rights), Property No. RZ-49 B, Khasra No. 496- 497, Situated in the Tughlakabad Extn Delhi South Delhi -110019	11-11-2022
5.	0MOD1611000005002976, Afsana, Yoonas Ansari	Rs. 7,75,482/-	20-08-2022	House No. 424, Khasra No.1306, VIII, Sarna Muradnagar, Maruf Moh- Eidgah Basti, Pargana Jalalabad Tehsil Modinagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201206	11-11-2022
6.	SHB_1509_044970, Kishor Kumar, Madhu Bala	Rs. 6,88,300/-	20-08-2022	Plot No 25 Khasra No-1969 MIN Krishna, Vihar Colony Village Behta Hazipur, Pargana Loni Tehsil & Dist Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201005	11-11-2022
7.	0REW1712000005010063, Sunil Kumar, Manoj Kumar	Rs. 6,29,758/-	20-08-2022	House Tax No. 6572, Waka Moholla Bas Sitab Rai, Rewari, Tehsil Distt-Rewari, Haryana - 123401	11-11-2022

SNS PROPERTIES AND LEASING LIMITED

SHUBHAM HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COMPANY LTD.

Regd. Office: D2-11, Budh Vihar, Phase - I, New Delhi CIN: L65922DL1985PLC020853, E-mail: sns.prop.ltd@gmail.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30.09.2022 Rs. In Millions

Particulars	Quarter ended 30.09.2022	Quarter ended 30.09.2021	Half Year ended 30.09.2022	Half Year ended 30.09.2021
Total Income	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and / or Exceptional Items)	-0.55	-0.66	-1.64	-1.78
Net Profit /(Loss) for the period after tax and / or after Exceptional Items	-0.55	-0.66	-1.64	-1.78
Total Comprehensive Income for the period	0.00	0.00	0.00	0.00
Equity share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	99.42	99.42	99.42	99.42
Earnings Per Share (of Rs.10/- each)				
Basic (not annualized) Rs.	-0.06	-0.07	-0.16	-0.18
Diluted (not annualized) Rs.	-0.06	-0.07	-0.16	-0.18

The Statutory Auditors have issued an Unmodified audit opinion on these results.

2. The above results were placed before and reviewed by the Audit committee at its meeting held on 14th November, 2022 and approved by the Board of Directors at its meeting held on the same date 3. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the guarter and half year ended

on September 30, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full Quarterly and Half Yearly Financial Results are available on the website of Metropolitan Stock Exchange Limited (BSE), www.msei.inand Company's website www.snsind.com. The results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (IND AS) as prescribed under

Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder.

For SNS Properties And Leasing Limited Harwinder Kaur

Place: New Delhi Director Dated: 14.11.2022 DIN: 06820530

Clix Housing Finance Limited

CIN-U65999DL2016PTC308791 Regd. Office: 4" floor, Kailash Building, Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place, New Delhi, North East -110001 Telephone: +91-124 3302000 | Website: www.clix.capital"

Statement under Regulation 52(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the guarter ended 30 September 2022

(INR In thousands)

Authorized Officer

		Quarte	r ended	Year ended	
S. No	Particulars	30-Sep-22	30-Sep-21	31-Mar-22	
NO		Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations	60,563	76,642	4,12,807	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(10,110)	(22,992)	26,680	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(10,110)	(22,992)	26,680	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(7,407)	(22,992)	25,017	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(7,611)	(22,920)	26,561	
6	Paid up Equity Share Capital	5,50,000	5,50,000	5,50,000	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	2,367	(64,958)	(7,627)	
8	Securities Premium Account			84	
9	Net worth	5,52,367	4,85,042	5,42,373	
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	9,25,560	23,89,402	20,65,604	
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA NA	NA	NA	
12	Debt Equity Ratio	1.68	4.93	3.81	
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/-each) (for continuing and discontinued operations)* -				
18	Basic:	(0.13)	(0.42)	0.45	
	Diluted:	(0.13)	(0.42)	0.45	
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	
15	Debenture Redemption Reserve	NA.	NA	NA	

*Quarter end Basic EPS and Diluted EPS are not annualised

16 Debt Service Coverage Ratio

17 Interest Service Coverage Ratio

Note 1: The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 14 November 2022, in accordance with the requirement of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015, as amended, The above results for the guarter ended 30 September 2022 have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

NA

Note 2: The Board of Directors of the Company, in its meeting dated 07 July, 2022, has approved a scheme of amalgamation ("the Scheme") for amalgamation of the Company into Clix Capital Services Private Limited, the Holding Company. The Scheme has been submitted to Reserve Bank of India and is in process of approval. The Company will file the Scheme with the Regional Director, Registrar of Companies, as required under the Companies Act, 2013 post regulator approval(s). As per the Scheme, the appointed date for amalgamation is proposed as 1 April 2022.

Note 3: The above is an extract of the detailed format of the guarter ended results filed with the National Stock Exchange ("NSE") under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results are available on the website of National Stock Exchange (https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filingsannouncements) and is also available on the Company's website https://www.clix.capital/investors/

Note 4: For the items referred to in the sub-clauses of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange and can be accessed on & https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-announcements. For Clix Housing Finance India Limited

Vikram Rathi,

NA

0.11

1.87

Sr. Managing Director & CEO DIN: 00203808

ALOK B. SHRIRAM

2.97

7.61



Date: 14 November 2022

New Delhi



Place: Mumbai

Director

NA.

रीटा फाईनेन्स एण्ड लिजिंग लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: डी-328, बेसमेन्ट फ्लोर, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली - 110024 CIN:L67120DL1981PLC011741 Email: ritaholdingsltd@gmail.com; Website:www.ritafinance.in; Contact No: 011-45689444

30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के अनअंकेक्षित उद्वरित वित्तीय परिणाम (रू० लाखों में) विवरण समाप्त अर्घवार्षिक प्तमाप्त वार्षिक (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अंकेक्षित) 30-09-2022 30-06-2022 30-09-2021 30-09-2022 30-09-2021 31-03-2022

		30-03-2022	30-00-2022	30-03-2021	30-03-2022	30-03-2021	31-03-2022
- 17	संचालन से कुल आय	27.93	40.03	60.48	67.96	91.60	135.89
0	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	25.26	36.22	67.77	61.48	168.51	155.66
3	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	25.26	36.22	67.77	61.48	168.51	155.66
	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	18.96	27.09	59.28	46.05	134.66	116.67
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/ (हानि) शामिल (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद))	18.96	10.85	175.79	29.81	171.69	77.06
3	चुकता इक्वीटी शेयर पूँजी (सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर्स)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	अप्य इक्वीटी	-9		- 1 5			475.50
3	प्रति शेयर आय (सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर्स) (वार्षिक नहीं)						
43	मूल::	0.19	0.27	0.59	0.46	1.35	1.17

टिप्पणीः

तरल:

तिथि: 14.11.2022 स्थान: नई दिल्ली

सं०

- 1. सेबी (लिस्टिंग एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन, 2015 के नियमन 33श्के अन्तर्गत 30 सितम्बर, 2022 को समाप्त उपरोक्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के उद्घरित वित्तीय परिणामों का विस्तारित प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्जों में दाखिल किया गया।
- 1. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की है एवं निदेशक मंडल की उनकी 14 नवम्बर, 2022 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किये गये। उसके लिए कम्पनी के सांवधिक लेखापरीक्षकों ने सामित लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रदान की है।
- 3. पिछली अवधि के आकड़े वर्तमान अवधि के आकड़े की पृष्टि के लिए जहाँ भी आवश्यक थे। पूर्नगठित/पुनः वर्गीकृत किए गये हैं।

4. कम्पनी पर भारतीय लेखा मानक लागृ है।

कृते रीटा फाईनेन्स एण्ड लिजिंग लिमिटेड

बोर्ड की ओर से

पवन कुमार मित्तल (निर्देशक) DIN: 00749265

भारत सरकार का उपक्रम

A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE

touching lives, adding value

एमएमटीसी लिमिटेड सीआईएन : L51909DL1963GOI004033

(भारत सरकार का एक उद्यम) कोर -1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003 Email: mmtc@mmtclimited.com Website: www.mmtclimited.com

30 / 09 / 2022 को समाप्त तिमाही और अर्द वर्षिक के लिए स्टैंडअलोन और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का उद्धरण

(₹ करोड़ में, प्रति शेयर डेटा को छोड़कर) समेकित

	विवरण		स्टैं डउ	ालोन			समेकित					
क्रम सं		समाप्त	तिमाही	समाप्त अर्द बार्षिक		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही		समाप्त अर्द बार्षिक		वष	
		30.09.22 (अलेखा ਪरीक्षित)	30.09.21 (अलेखा ਧਵੀਵਿਗ)	30.09.22 (अलेखा ਧ रੀ क्षित)	30.09.21 (अलेखा ਧਵੀ(ਬਰ)	31.03.22 (लेखा परीक्षित)	30.09.22 (अलेखा परीक्षित)	30.09.21 (अलेखा ਧਵੀਵਿਜ਼)	30.09.22 (अलेखा परीक्षित)	30.09.21 (अलेखा ਪ रੀ क्षित)	31.03.22 (लेखा परीक्षित)	
1	संचालन से कुल आय	14.09	1,390.54	261.79	5,559.35	8,393.29	545.48	2316.28	2056.82	7220.02	11796.24	
2	कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों से पहले)	(24.03)	(48.52)	(150.76)	(107.94)	275.80	(23.54)	(69.14)	(155.49)	(141.75)	244.63	
3	संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) का हिस्सा (कर का निवल)	2	123	-	(A)	12	459.11	(3.98)	468.56	(4.93)	11.65	
4	कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	1,389.62	(185.80)	1,263.88	(267.65)	120.60	1,849.22	(210.40)	1,727.71	(306.39)	101.08	
5	कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवाद मदों के बाद)	1,117.19	(185.80)	991.45	(267.65)	(241.93)	1,576.71	(210.69)	1,454.87	(306.87)	(262.38)	
6	कुल व्यापक आय जिसमें कर पश्चात शुद्ध लाम/(हानि) और कर पश्चात अन्य व्यापक आय	1,117.40	(184.45)	987.73	(264.95)	(229.06)	1,576.07	(209.00)	1,450.46	(303.72)	(247.83)	
7	दत्त इक्विटी शेयर पूंजी(शेयर का अंकित मूल्य ₹ 1 प्रत्येक)	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
8	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)			1031.13	920.37	43.40				(353.97)	(298.09)	
9	प्रति शेयर आय (₹ 1/— प्रत्येक) (वार्षिक नहीं): (ए) बेसिक (वी) डाईलुटेड	7.45 7.45	(1.24) (1.24)	6.61 6.61	(1.78) (1.78)	(1.61) (1.61)	10.51 10.51	(1.40) (1.40)	9.70 9.70	(2.05) (2.05)	(1.75) (1.75)	

- (1) उपरोक्त परिणामों की समीक्षा निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा 30.08.2022 को आयोजित अपनी बैठक में की गई है और उसी दिन आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- (2) कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने मारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत अपेक्षित इन वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
- (3) पिछली तिमाहियोंध्वर्षों के आंकड़ों को तदनुसार पुनर्समूहितध्युनरू व्यवस्थित किया गया है ताकि जहां कहीं आवश्यक हो, उन्हें तुलनीय बनाया जा सके।
- (4) उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (www.nseindia.com और www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट

(www.mmtclimited.com) पर उपलब्ध है।

जगह: नई दिल्ली दिनांक: 14.11.2022 निदेशक मंडल के आदेश द्वारा 要0/-(कपिल कुमार गुप्ता) निदेशक (एफ) और सीएफओ डीआईएनः 08751137

GOOD YEAR GOODYEAR INDIA LIMITED

CIN: L25111HR1961PLC008578

'Registered office: Mathura Road, Ballabgarh (Dist. Faridabad) - 121004, Haryana 'Telephone: 0129-6611000 Fax: 0129-2305310, E-mail: gyi_info@goodyear.com, Website: www.goodyear.co.in

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022 (Rs. In Lakhs)

	Particulars	Current 3 months ended (30/09/2022)	Preceding 3 months ended (30/06/2022)	Corresponding 3 months ended (30/09/2021)	Year to date figures for current period ended (6 months) (30/09/2022)	Year to date figures for Corresponding period ended (6 Months) (30/09/2021)	Year to date figures for Current year ended (12 Months) (31/03/2022)
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	77,155	82,314	70,464	1,59,469	1,24,430	2,45,889
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	3,622	5,044	5,252	8,666	8,851	13,845
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	3,622	5,044	5,252	8,666	8,851	13,845
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,710	3,774	3,916	6,484	6,605	10,289
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (loss) (after tax)]	2,645	3,860	3,867	6,505	6,474	10,131
6	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs.10/- per share)	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307
7	Reserve excluding revaluation reserve as shown in the audited balance sheet of the previous year.						81,650
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised): a) Basic (Rs.) b) Diluted (Rs.)	11.75 11.75	16.36 16.36	16.98 16.98	28.11 28.11	28.63 28.63	44.61 44.61

1 The above is an extract of the detailed format of the Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the Standalone Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and also available on the Company's website i.e www.goodyear.co.in/investor-relations.

2 The unaudited standalone financial results has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

- 3 The Company is engaged in the business of sales of automotive tyres, tubes and flaps. The Company sells tyres of its own brand "Goodyear". The Chief Operating Decision Maker (CODM), Managing Director, performs a detailed review of the operating results, thereby makes decisions about the allocation of resources among the various functions. The operating results of each of the functions are not considered individually by the CODM, the functions do not meet the requirements of Ind AS 108 for classification as an operating segment, hence there is only one operating segment namely, "Automotive
- tyres, tubes & flaps". 4 The Code on Social Security, 2020 ('Code') relating to employee benefits during employment and post-employment benefits received Presidential assent in September 2020. The Code has been published in the Gazette of India. However, the date on which the Code will come into effect has not been notified. The Company will assess the impact of the Code when it comes into effect and will record any related impact in the period the Code becomes effective.
- 5 This Statement has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on November 14, 2022. The financials results for the quarter and half year ended September 30, 2022 have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company and they have expressed an unmodified conclusion thereon.

For GOODYEAR INDIA LIMITED Sandeep Mahajan

Place: New Delhi Date: November 14, 2022

Registered Office: 8/15, Arva Nagar, Kanpur-208002 (India) Tel: 0512-2531762 STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR & QUARTER ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2022 (Rs. in Lacs) Year Ended Quarter Ended | Quarter Ended | Half Year Ended | Half Year Ended | 30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022 Particulars (Unaudited) (Unaudited (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited Total income from operations (net) 4,216.24 4,319.71 3,256.68 8,535.95 6,581.02 12,514.49 92.87 243.06 Net profit / (loss) for the period before tax and 50.19 88.67 143.06 320.33 exceptional items Net profit / (loss) for the period before tax and 50.19 92.87 88.67 143.06 243.06 320.33 after exceptional items 66.26 69.59 109.91 245.45 Net profit / (loss) for the period after tax 43.65 Total comprehensive income for the period 43.65 66.26 69.59 109.91 183.61 243.35 6. Paid-up equity share capital 711.26 711.26 711.26 711.26 711.26 711.26 Reserves i.e Other Equity 1,407.80 8. Earnings per equity share (EPS) (Face value per share Rs.10/-each) 0.93 2.58 a) Basic (Rs.per share) 0.61 0.98 1.55 3.42 1.55 2.58 0.93 0.98 3.42 b) Diluted (Rs.per share) 0.61

STANDARD SURFACTANTS LIMITED

Notes: 1. These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above standalone financial results: were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on Novemebr 14, 2022. The statutory auditors have carried out an review of these financial results. The figures for the guarter ended September 30, 2022 is the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures upto the first quarter of the respective financial year, which were only reviewed and not subject to audit. 3. Figures for the previous corresponding periods have been regrouped, wherever considered necessary. 4. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone quarterly financial results are available on stock excharige websites and on Company's website For and on behalf of the Board

Pawan Kumar Garg Place: Kanpur Chairman & Managing Director Date: 14.11.2022

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त दीपक, पुत्र श्री दलीप सिंह, पताः बी-387, राजीव नगर, दिल्ली, ने FIR 837/2016 U/s 341/354/354A/ 354D/506/509 IPC थाना बेगमपुर, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त दीपक मिल नही रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त दीपक फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि FIR 837/2016 U/s 341/354/ 354A/354D/506/509 IPC थाना बेगमपुर, दिल्ली के उक्त अभियुक्त दीपक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 12.12.2022 को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार सुश्री सान्या दलाल महानगर दण्डाधिकारी (महिला कोर्ट-02), कमरा नं. 18, भूतल, उत्तर पश्चिम, DP/2843/RD/2022 रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

प्रपत्र–'जी' अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण ढींगरा जार्डिन इंफ्रास्ट्रक्वर प्राइवेट लिमिटेड एक अचल संपत्ति (आवासीय) प्रोजेक्ट का फरीदाबाद में संचालन

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली. 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

	Я	ासंगिक विवरण
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम साथ में पैन/सीआईएन/एलएलपी नं.	ढींगरा जार्डिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन: U45201DL2006PTC147404
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकृत कार्यालयः 71, चित्रा गुप्ता रोड पहाडगंज, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली—110025
3.	वेबसाइट का यूआरएल	https://djipl.com/
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैं	ढींगरा कैलिफोर्निया काउंटी, सैक्टर –80, फरीदाबाद में निर्माणाधीन आवासीय परियोजना
5.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं की स्थापित क्षमता	रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 6 टावरों में 687 फ्लैट हैं।
6.	मुख्य उत्पादों की मात्रा और मूल्य / पिछले वितीय वर्ष में बेची गई सेवाएं	कॉर्पोरेट देनदार ने वित्त वर्ष 2020—2021 में कोई राजस्व बुक नहीं किया है। इसके बाद का विवरण फिलहाल उपलब्ध नहीं है
7.	कर्मचारियों / कामगार की संख्या	कुछ नही
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूची के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं	cirp.djipl@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है	cirp.djipl@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	30 नवंबर 2022
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	10 दिसंबर 2022
12,	अंतरिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	15 दिसंबर 2022
13.	ईओआई जमा करने के लिए संसाधित ईमेल आईडी	cirp.djipl@gmail.com

समाधान प्रोफेशनल, ढींगरा जार्डिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-001/IP-P01437/2018-2019/12240 एएफए वैधता : 23.02.2023 तक तिथि: 14.11.2022 पताः सी – 35, ग्राउंड पलोर, विवेक विहार, फेज – 1, नई दिल्ली –110095

एन के टेक्सटाइल इंडस्टीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः ओमेक्स स्क्वायर, प्लॉट नंबर 14, 5वीं मंजिल, जसोला जिला केंद्र, जसोला, नई दिल्ली-110025 सीआईएनः L17299DL1983PLC163230, दूरभाषः +91 11 61119313

ईमेल आईडी: n.ktextlles123@gmail.com, वेबसाइट: www.nktil.com 30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए स्टैंडअलोन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

	समाप्त तिमाह	हों .		समाप्त छम	ाही अवधि	समाप्त वर्ष
	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2021 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2021 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2022 (लेखापरीक्षित)
1 प्रचालनों से कुल आय	1.21	1.18	1.21	2.39	2.42	3.73
अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अ पवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(0.15)	0.06	(0.49)	(0.09)	(1.04)	(2.73)
अविधि हेतु कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अ पवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(0.15)	0.06	(0.45)	(0.09)	(1.00)	(2.73)
 अविध हेतु कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) 	(0.13)	0.04	(0.45)	(0.09)	0.03	(2.69)
5 अवधि हेतु कुल व्यापक आय [लाभ (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से मिलकर]	(0.13)	0.65	(0.49)	0.52	(0.30)	1,316.43
6 प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 10 प्रति शेयर अंकित मूल्य)	83.98	83.98	83.98	83.98	83.98	83.98
7 आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर) जैसा कि लेखा वर्ष 2021-22 के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में प्रदर्शित है						5,794.12
आय प्रति शेयर (रु.) (रु. 10/- प्रत्येक)(क) बेसिक(ख) डाइल्यूटेड	(0.02) (0.02)				(0.12) (0.12)	(0.32) (0.32)
30 सितंबर, 2022 को समाप्त ि	तेमाही और इ	छमाही के लि	ए समेकित	अनंकेक्षित वि		का सारांश

(लाख रुपये में समाप्त छमाही अवधि समाप्त वर्ष 30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022 (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) प्रचालनों से कुल आय 732.31 1,472.21 778.44 अवधि हेत निवल लाभ/(हानि) (कर. अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) 724.15 202.81 1464.53 926.96 1852.24 747.19 3 अवधि हेतु कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) 873.16 367.34 1428.50 1240.50 1933.50 2268.26 4 अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) 759.43 349.05 1228.17 1108.48 1701.56 2180.42 5 अवधि हेतु कुल व्यापक आय [लाभ (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से मिलकर] 11,074.74 768.37 1,127.16 1,713.58 358.79 1,228.17 6 प्रदत्त इक्विटी शेयर पंजी (रु. 10 प्रति शेयर अंकित 83.98 83.98 83.98 83.98 83.98 83.98 आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर) जैसा कि लेखा वर्ष 2021-22 के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में प्रदर्शित है 45043.04 8 आय प्रति शेयर (रु.) (रु. 10/- प्रत्येक)

टिप्पणियाँ: 1) उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दाखिल अलेखापरीक्षित परिणामों के विस्तत प्रारूप का एक उद्धरण है। अलेखापरीक्षित परिणामों का पूरा प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.nktil.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.msei.in पर उपलब्ध है।

71.41

34.93

34.93

106.75

106.75

106.34

106.34

151.60

151.60

238.84

238.84

निदेशक

2. विस्तृत अलेखापरीक्षित परिणामों और इस सारांश की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 14.11.2022 को आयोजित बैठक में अनमोदित किया गया।

बोर्ड की आज्ञानुसार एन.के. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

संजय कुमार गुप्ता

स्थानः नई दिल्ली दिनांक : 14.11.2022 डीआईएन: 00027728

(क) बेसिक

(ख) डाइल्युटेड

Chairman & Managing Director